

Lev

Chapter 4

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-बोला यहोवा से मूसा कहते-हुए
[H0413](#) [H3068](#) [H1696](#) [H0559](#) [H4872](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

2 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: נֹפֶשׁ כִּי-תִחַטָּא בְשֹׁנְנָה מִכֹּל מִצְוַת יְהוָה
बोल से पुत्रों इस्राएल-के इस्राएल-के कहते-हुए प्राण जब पाप-करे भूल-से किसी-से आज़ाओं यहोवा-की
[H0413](#) [H1696](#) [H3478](#) [H0559](#) [H5315](#) [H2398](#) [H7684](#) [H3605](#) [H4687](#) [H3068](#)
3 וְאִשָּׁר לֹא תַעֲשִׂינָה וְעֹשֶׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה:
जो नहीं ली-जाए और-करे एक-से उन-में-से
[H3808](#) [H0259](#) [H2007](#)

“इस्राएल के लोगों से कहो: यदि किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया हो तो उस व्यक्ति को निम्न बातें करनी चाहिए:

3 אִם הֵכֵן יָצַק אֱשֵׁר חַטָּאתוֹ עַל חַטָּאתוֹ וְהִקְרִיב וְהָעֵם לְאִשְׁמַת דֹּשׁ-לִּי יִחַטָּא תְּמִיחַ אֲבִיחַת יָצַק אִם
यदि याजक अभिषिक्त पाप-करे पाप-के-लिए दोगों-के और-चढ़ाए पर पाप-अपने जो पाप-किया
[H3548](#) [H4899](#) [H2398](#) [H0819](#) [H7126](#) [H3068](#) [H8549](#) [H1241](#) [H6499](#)
4 וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא
और-लाए को बलि और-लाए को बलि और-लाए को बलि
[H0935](#) [H0853](#) [H6499](#) [H0413](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#) [H6440](#) [H3068](#) [H5564](#) [H0853](#) [H3027](#)

“यदि अभिषिक्त याजक से कोई ऐसा पाप हुआ हो जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो तो उसे अपने किए गए पाप के लिए यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए: उसे एक बछड़ा यहोवा को भेंट में देना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। उसे यहोवा को बछड़ा पापबलि के रूप में चढ़ाना चाहिए।

4 וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא
और-लाए को बलि और-लाए को बलि और-लाए को बलि
[H0935](#) [H0853](#) [H6499](#) [H0413](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#) [H6440](#) [H3068](#) [H5564](#) [H0853](#) [H3027](#)
5 וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא
और-लाए को बलि और-लाए को बलि और-लाए को बलि
[H0935](#) [H0853](#) [H6499](#) [H0413](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#) [H6440](#) [H3068](#) [H5564](#) [H0853](#) [H3027](#)

अभिषिक्त याजक को उस बछड़े को परमेश्वर के सामने मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लाना चाहिए। उसे अपना हाथ उस बछड़े के सिर पर रखना चाहिए और यहोवा के सामने उसे मार देना चाहिए।

5 וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא
और-लाए को बलि और-लाए को बलि और-लाए को बलि
[H0935](#) [H0853](#) [H6499](#) [H0413](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#) [H6440](#) [H3068](#) [H5564](#) [H0853](#) [H3027](#)

तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुच खून लेना चाहिए और मिलापवाले तम्बू में ले जाना चाहिए।

6 וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא
और-डुबोए और-डुबोए और-डुबोए को याजक को याजक को याजक को
[H2881](#) [H3548](#) [H0853](#) [H0676](#) [H1818](#) [H1818](#) [H6471](#) [H7651](#) [H1818](#) [H6440](#)
7 וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא וְהָבִיא אֶת-הַפָּר בַּיּוֹם הַהוּא
और-डुबोए और-डुबोए और-डुबोए को याजक को याजक को याजक को
[H2881](#) [H3548](#) [H0853](#) [H0676](#) [H1818](#) [H1818](#) [H6471](#) [H7651](#) [H1818](#) [H6440](#)

याजक को अपनी उँगलियाँ खून में डालनी चाहिए और महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने खून को सात बार परमेश्वर के सामने छिड़कना चाहिए।

7 **וַיִּזְחַק**
 और-दे
[H5414](#) [H3548](#) [H1818](#) [H4196](#) [H7004](#) [H5561](#) [H6440](#) [H3068](#)

בְּאֶהָל **מִוֶּעֶד** **וְאֵת** **כָּל־** **רַם** **הַפָּר** **יִשְׁפֹּךְ** **אֶל־** **יְסוֹד** **מִזְבֵּחַ** **הָעֹלָה** **אֲשֶׁר־**
 में-तम्बू में-तम्बू और-को और-को सब लहू बैल-का उंडेले पर आधार वेदी होमबलि-की
[H0168](#) [H4150](#) [H0853](#) [H3605](#) [H1818](#) [H6499](#) [H8210](#) [H0413](#) [H3247](#) [H4196](#)

פֶּתַח **אֶהָל** **מוֶעֶד**
 द्वार तम्बू मिलाप-के
[H6607](#) [H0168](#) [H4150](#)

याजक को कुछ खून सुगन्धित धूप की वेदी के सिरे पर लगाना चाहिए। (यह वेदी यहोवा के सामने मिलापवाले तम्बू में है।) याजक को बछड़े का सारा खून होमबलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। (वह वेदी मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है।)

8 **וְאֵת־** **כָּל־** **חֶלְבֵי** **פֶּרֶ** **הַחֲטָאֹת** **יָרִים** **מִמֶּנּוּ** **אֶת־** **הַחֶלֶב** **הַמְכֻסָּה** **עַל־** **הַקָּרֶב**
 और-को सब चर्बी बैल पापबलि-की उठाए उस-में-से उस-में-से चर्बी चर्बी पर अंतड़ियां
[H0853](#) [H3605](#) [H2459](#) [H6499](#) [H0853](#) [H2459](#) [H3680](#) [H7130](#)

וְאֵת **כָּל־** **הַחֶלֶב** **אֲשֶׁר** **עַל־** **הַקָּרֶב**
 और-को सब चर्बी जो पर अंतड़ियों
[H0853](#) [H3605](#) [H2459](#) [H7130](#)

औ उसे पापबलि किए गए बछड़े की सारी चर्बी को निकाल लेना चाहिए। उसे भीतरी भागों के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी को निकाल लेनी चाहिए।

9 **וְאֵת** **שְׁתֵּי** **הַקְּלִיֹּת** **וְאֵת־** **הַחֶלֶב** **אֲשֶׁר** **עַל־** **יְסוֹד** **הַמִּזְבֵּחַ** **וְאֵת־** **הַלֶּחֶט**
 और-को दो गुर्दे और-को चर्बी चर्बी जो जो पर कमरों और-को लपेट
[H0853](#) [H8147](#) [H3629](#) [H0853](#) [H2459](#) [H3680](#) [H3508](#)

עַל־ **הַקְּבֹד** **עַל־** **הַקְּלִיֹּת** **יִסְרְנָה**
 पर कलेजा गुर्दे निकाले-उसे
[H3516](#) [H3629](#) [H5493](#)

उसे दोनों गुर्दे, उसके ऊपर की चर्बी और पुट्टे पर की चर्बी ले लेनी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी लेनी चाहिये और उसे कलेजे को गुर्दे के साथ निकाल लेना चाहिए।

10 **כְּאֲשֶׁר** **יִוָּרֵם** **מִשּׁוֹר** **זָבַח** **הַשְּׁלָמִים** **וְהַקְּטִירִם** **הַכֹּהֵן** **עַל** **מִזְבֵּחַ** **הָעֹלָה**
 जैसे उठाया-जाता बैल-से बलिदान के मेलबलियों-के और-जलाए-उन्हें और-जलाए-उन्हें याजक पर वेदी होमबलि-की
[H0853](#) [H7794](#) [H2077](#) [H8002](#) [H3548](#) [H4196](#)

याजक को ये चीजें ठीक उसी तरह लेनी चाहिए जिस प्रकार उसने ये चीजें मेलबलि के बछड़े से ली थी। याजक को होमबलि की वेदी पर पशु के भागों को जलाना चाहिए।

11 **וְאֵת־** **עוֹר** **הַפָּר** **וְאֵת־** **כָּל־** **בְּשָׂרוֹ** **עַל־** **רֹאשׁוֹ** **וְעַל־** **כְּרָעָיו**
 और-को खाल बैल-की सब मांस-उसका पर उसके सिर-उसके और-पर पैरों-उसके
[H0853](#) [H5785](#) [H6499](#) [H0853](#) [H3605](#) [H1320](#) [H3767](#)

וְקַרְבּוֹ **וּפְרָשָׁיו**
 और-अंतड़ियां-उसकी और-गोबर-उसका
[H7130](#) [H6569](#)

किन्तु याजक को बछड़े का चमड़ा, सिर सहित इसका सारा मांस, पैर, भीतरी भाग और शरीर का बेकार भाग निकल लेना चाहिए। याजक को डेरे के बाहर विशेष स्थान पर बछड़े के पूरे शरीर को लेजाना चाहिए जहाँ राख डाली जाती है। याजक को वहाँ लकड़ी की आग पर बछड़े को जलाना चाहिए। बछड़े को वहाँ जलाया जाना चाहिए जहाँ राख डाली जाती है।

12 וְהוֹצִיא אֶת-כָּל-הַפָּר אֶל-מִחוּץ לַמִּחֲנֶה אֶל-מְקוֹם טָהוֹר אֶל-שַׁפָּח 12
 और-निकाले को सब बैल पर पर शुद्ध स्थान पर पर डालने-की-जगह पर
[H3318](#) [H0853](#) [H3605](#) [H6499](#) [H0413](#) [H2351](#) [H4264](#) [H0413](#) [H4725](#) [H2889](#) [H0413](#) [H8211](#)

וְשָׂרַף אֹתוֹ עַל-עֵצִים בְּאֵשׁ עַל-שַׁפָּח הַדָּשָׁן הַיָּשָׁן : פ
 और-जलाए उसे पर पर लकड़ियों आग-में पर पर ख-के डालने-की-जगह पर पर ख-के जलाया-जाए :
[H1880](#) [H8313](#) [H0853](#) [H8313](#) [H6086](#) [H0784](#) [H8211](#) [H1880](#) [H1880](#) [H1880](#)

किन्तु याजक को बछड़े का चमड़ा, सिर सहित इसका सारा माँस, पैर, भीतरी भाग और शरीर का बेकार भाग निकल लेना चाहिए। याजक को डेरे के बाहर विशेष स्थान पर बछड़े के पूरे शरीर को लेजाना चाहिए जहाँ राख डाली जाती है। याजक को वहाँ लकड़ी की आग पर बछड़े को जलाना चाहिए। बछड़े को वहाँ जलाया जाना चाहिए जहाँ राख डाली जाती है।

13 וְאִם כָּל-עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁנוּ יִשְׁנוּ וְנִעְלָם דְּבָר מֵעֵינַי הַקְּהָל וְעָשׂוּ אֶחָד
 और-यदि सब मंडली इस्राएल-की भूल-करे भूल-करे और-छिपा-हो और-छिपा-हो बात आँखों-से सभा-की और-करें एक
[H3605](#) [H5712](#) [H3478](#) [H7686](#) [H5956](#) [H1697](#) [H6951](#) [H20259](#)

מִכִּלְ-מִצְוֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא-תַעֲשִׂינָהּ וְאִשְׁמוּ: מִכִּלְ-מִצְוֹת יְהוָה
 किसी-से आज्ञाओं यहोवा-की जो नहीं की-जाएँ और-दोषी-हों
[H3605](#) [H4687](#) [H3068](#) [H3808](#) [H0816](#)

“ऐसा हो सकता है कि पूरे इस्राएल राष्ट्र से अनजाने में कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे न करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। यदि ऐसा होता है तो वे दोषी होंगे।

14 וְנוֹדַעְהָ וְנוֹדַעְהָ הַחֲטָאתָ אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ וְהִקְרִיבוּ וְהִקְרִיבוּ פָּר בֶּן-בָּקָר
 और-जाना-जाए और-जाना-जाए पाप पाप जो पाप-किया तम्बू उस-पर और-चढ़ाएँ सभा बैल बछड़ा गाय-का
[H3045](#) [H2398](#) [H7126](#) [H6951](#) [H6499](#) [H1241](#)

לְחַטָּאת וְהִבְיֵאוּ אֹתוֹ לִפְנֵי אֱהֶל מוֹעֵד: לְחַטָּאת וְהִבְיֵאוּ
 पापबलि-के-लिए और-लाएँ उसे सामने तम्बू के मिलाप-के
[H4150](#) [H0168](#) [H6440](#) [H0853](#) [H0935](#)

यदि उन्हें इस पाप का पता चलता है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक बछड़ा पापबलि के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें बछड़े को मिलापवाले तम्बू के सामने लाना चाहिए।

15 וְשָׂחַת וְשָׂחַת יְהוָה לִפְנֵי הַפָּר רֹאשׁ עַל-יְדֵיהֶם אֶת-הָעֵדָה זְקֵנֵי וְסֹמְכוֹ
 और-वध-करे यहोवा-के सामने बैल-के सिर पर हाथों-अपने को मंडली-के प्राचीन और-रखें
[H3068](#) [H6440](#) [H6499](#) [H3027](#) [H0853](#) [H5712](#) [H2205](#) [H5564](#)

אֶת-הַפָּר לִפְנֵי יְהוָה: אֶת-הַפָּר לִפְנֵי
 को बैल सामने यहोवा-के
[H3068](#) [H6440](#) [H6499](#) [H0853](#)

बुजुर्गों को यहोवा के सामने बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखने चाहिए। यहोवा के सामने बछड़े को मारना चाहिए।

16 וְהִבְיֵאוּ חֲכִיזָה מִדָּם הַפָּר אֶל-תַּמְבּוּ אֱהֶל מוֹעֵד: וְהִבְיֵאוּ חֲכִיזָה
 और-लाए याजक अभिषिक्त कुछ-से बैल-के में तम्बू के मिलाप-के
[H0935](#) [H3548](#) [H4899](#) [H1818](#) [H6499](#) [H0413](#) [H0168](#) [H4150](#)

तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून मिलापवाले तम्बू में लाना चाहिए।

17 וְשָׂחַת וְשָׂחַת יְהוָה לִפְנֵי הַפָּר שִׁבְעָה וְהִזָּה וְהִזָּה מִן-הָאֲצָבָעוֹ הַחֲכִיזָה וְטָבַל
 को यहोवा-के सामने बार सात और-छिड़के लहू कुछ-से उंगली-अपनी याजक और-डुबोए
[H0854](#) [H3068](#) [H6440](#) [H6471](#) [H7651](#) [H1818](#) [H0676](#) [H3548](#) [H2881](#)

פְּנֵי הַפָּרְכָּת: פְּנֵי
 परदा-के सामने
[H6532](#) [H6440](#)

याजक को अपनी उँगलियाँ खून में डूबानी चाहिए और पर्दे के सामने सात बार खून को यहोवा के सामने छिड़कना चाहिए।

24 וְסָמָךְ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ
 और-रखे और-अपना हाथ-अपना हाथ पर पर सिर के-बकरे और-वध-करे और-वध-करे
 H0853 H4725 H0853 H1931 H3027 H5564

הַעֲלֵה הוֹמָבָלִים לְפָנָי וְהוֹמָבָלִים לְפָנָי וְהוֹמָבָלִים לְפָנָי
 होमबलि सामने यह पापबलि यहोवा-के सामने
 H1931 H3068 H6440

शासक को बकरे के सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान पर मारना चाहिए जहाँ वे होमबलि को यहोवा के सामने मारते हैं। बकरा पापबलि है।

25 וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח
 और-ले और-ले और-ले और-ले और-ले और-ले और-ले और-ले और-ले
 H0853 H4196 H5414 H0676 H1818 H3548 H3947

וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח וְלֶקַח
 लहू-उसका लहू-उसका लहू-उसका लहू-उसका लहू-उसका लहू-उसका लहू-उसका लहू-उसका
 H4196 H3247 H0413 H8210 H1818

याजक को पापबलि का कुछ खून अपनी ऊँगली पर लेना चाहिए। याजक होमबलि की वेदी के सिरे पर खून छिड़केगा। याजक को बाकी खून होमबलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए

26 וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת
 और-को और-को और-को और-को और-को और-को और-को और-को
 H8002 H2077 H2459 H4196 H2459 H3605 H0853

וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת
 याजक याजक और-क्षमा-हो पाप-अपने-से
 H5545 H3548

और याजक को बकरे की सारी चर्बी वेदी पर जलानी चाहिए। इसे उसी प्रकार जलाना चाहिए जिस प्रकार वह मेलबलि की चर्बी को जलाता है। इस प्रकार वह मेलबलि की चर्बी को जलाता है। इस प्रकार याजक शासक के पाप का भुगतान करता है और यहोवा शासक को क्षमा करेगा।

27 וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת
 और-यदि और-यदि और-यदि और-यदि और-यदि और-यदि और-यदि और-यदि
 H3068 H4687 H0259 H0776 H7684 H2398 H0259 H5315

וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת וְאֵת
 जो नहीं की-जाएँ और-दोषी-हो
 H0816 H3808

“हो सकता है कि साधारण जनता में से किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई एसी बात हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया है।

28 אִם אִם אִם אִם אִם אִם אִם אִם
 या या या या या या या या
 H5795 H8166 H0935 H2398 H0413 H3045

אִם אִם אִם אִם אִם אִם אִם אִם
 निर्दोष निर्दोष निर्दोष निर्दोष निर्दोष निर्दोष निर्दोष निर्दोष
 H2398 H5347 H8549

यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो वह एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष न हो। यह उस व्यक्ति की भेंट होगी। वह इस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने किया है।

29 וְסָמָךְ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ וְיָדְךָ אֲרָרְךָ
 और-रखे और-अपना हाथ-अपना हाथ पर पर सिर के-बकरे और-वध-करे और-वध-करे
 H4725 H0853 H3027 H0853 H5564

उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए और होमबलि के स्थान पर उसे मारना चाहिए।

30 וְלָקַח וְהָכֵן מִדָּמָהּ בְּאֶזְבְּעוֹ וְנָתַן עַל-קַרְנֹת מִזְבֵּחַ הָעֹלָה וְאֶת-כָּל- 30
 और-ले और-दे पर सींगों वेदी होमबलि-की सब
[H3947](#) [H3548](#) [H1818](#) [H11818](#) [H0676](#) [H5414](#) [H4196](#) [H0853](#) [H3605](#)

וְהָכֵן מִדָּמָהּ בְּאֶזְבְּעוֹ וְנָתַן עַל-קַרְנֹת מִזְבֵּחַ הָעֹלָה וְאֶת-כָּל- 30
 लहू-उसका-से उंगली-अपनी-से और-दे पर सींगों वेदी-के
[H4196](#) [H3247](#) [H0413](#) [H8210](#) [H1818](#)

तब याजक को उस बकरी का कुछ खून अपनी उँगली पर लेना चाहिए और होमबतलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। याजक को वेदी की नींव पर बकरी का सारा खून उँडेलना चाहिए।

31 וְאֶת-כָּל-חֹלְבָהּ יֹסִיר כְּאֲשֶׁר הוֹסֵר חֶלְבֵי מֵעַל זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְהַקְטִיר 31
 और-को सब चर्बी-उसकी चर्बी निकाले जैसे चर्बी निकाली-जाती चर्बी से-उपर बलिदान मेलबलियों-के और-जलाए
[H0853](#) [H3605](#) [H2459](#) [H5493](#) [H2459](#) [H5493](#) [H2459](#) [H2077](#) [H8002](#)

וְהָכֵן מִדָּמָהּ לְרִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה וְכִפָּר עֲלָיו וְהָכֵן מִדָּמָהּ לְוֵסֵל 31
 याजक वेदी-पर सुगंध-के-लिए सुखदायक यहोवा-को और-प्रायश्चित-करे उस-पर याजक और-क्षमा-हो उसे
[H3548](#) [H4196](#) [H7381](#) [H5207](#) [H3068](#) [H5545](#) [H3548](#)

פ

तब याजक को बकरी की सारी चर्बी उसी प्रकार निकालनी चाहिए जिस प्रकार मलेबलि से चर्बी निकाली जाती है। याजक को इसे यहोवा के लिये सुगन्धि धूप की वेदी पर जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान कर देगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा।

32 וְאִם-כִּבְשֹׁ וַיָּבֵא קָרְבָּנוֹ יְבִיאָנָהּ: 32
 और-यदि मेमना लाए भेंट-अपनी लाए निदोष मादा पापबलि-के-लिए
[H3532](#) [H0935](#) [H5347](#) [H8549](#) [H0935](#)

“यदि यह व्यक्ति पापबलि के रूप में एक मेमने को लाता है तो उसे एक मादा मेमना लानी चाहिए जिसमें कोई दोष न हो।

33 וְסָמָךְ אֶת-יָדוֹ עַל-רֹאשׁ הַחֲטָאתָּ וְשָׁחַט אֹתָהּ לְחֲטָאתָּ בְּמָקוֹם 33
 और-रखे को हाथ-अपना पर सिर पापबलि-के और-वध-करे उसे पापबलि-के-लिए स्थान-में
[H5564](#) [H0853](#) [H3027](#) [H0853](#) [H4725](#)

וְשָׁחַט אֹתָהּ לְחֲטָאתָּ בְּמָקוֹם 33
 वध-करे जहां होमबलि को
[H0853](#)

व्यक्ति को उसके सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान पर पापबलि के रूप में मारना चाहिए जहाँ वे होमबलि के पशु को मारते हैं।

34 וְלָקַח וְהָכֵן מִדָּמָהּ בְּאֶזְבְּעוֹ וְנָתַן עַל-קַרְנֹת מִזְבֵּחַ הָעֹלָה וְאֶת-כָּל- 34
 और-ले और-दे पर उंगली-अपनी-से पापबलि-के कुछ-से याजक और-ले
[H3947](#) [H3548](#) [H1818](#) [H0676](#) [H5414](#) [H4196](#) [H0853](#)

וְהָכֵן מִדָּמָהּ בְּאֶזְבְּעוֹ וְנָתַן עַל-קַרְנֹת מִזְבֵּחַ הָעֹלָה וְאֶת-כָּל- 34
 लहू-उसका सब उंगली-अपनी-से उंगली-अपनी-से पर आधार वेदी-के
[H4196](#) [H3247](#) [H0413](#) [H8210](#) [H1818](#) [H3605](#)

याजक को अपनी उँगली पर पापबलि का खून लेना चाहिए और इसे होमबलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। तब उसे मेमने के सारे खून को वेदी की नींव पर उँडेलना चाहिए।

	הַשְּׁלֵמִים	מִזְבַּח	הַכֶּשֶׁב	חֶלְבֵי	יוֹסֵר	כְּאֲשֶׁר	יֹסִיר	חֶלְבָּה	כָּל-	וְאֶת-	
	मेलबलियों-के	बलिदान-से	मेमने-की	चर्बी	निकाली-जाती	जैसे	निकाले	चर्बी-उसकी	सब	और-को	
	H8002	H2077	H3775	H2459	H5493		H5493	H2459	H3605	H0853	
עַל-	חֶלְבֵי	עֲלֵיו	וְכִפֹּר	יְהוָה	אֲשֵׁי	עַל	הַמִּזְבֵּחַ	אֹתָם	חֶלְבֵי	וְהִקְטִיר	
पर	याजक	उस-पर	और-प्रायश्चित्त-करे	यहोवा-की	अग्निबलियों	पर	वेदी-पर	उन्हें	याजक	और-जलाए	
	H3548			H3068	H0801		H4196	H0853	H3548		
					פ	לֹ: וְ	וְנִסְלַח	חַטָּא	אֲשֶׁר-	חַטָּאתָו	
					—	उसे	और-क्षमा-हो	पाप-किया	जो	पाप-अपने-से	
							H5545	H2398			

याजक को मेमने की सारी चर्बी उसी प्रकार लेनी चाहिए जिस प्रकार मेलबलि के मेमने की चर्बी ली जाती है। याजक को यहोवा के लिए आग द्वारा दी जाने वाली भेंटों के समान ही वेदी पर इन टुकड़ों को जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा।